

प्रेस नोट दिनांक 16.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 08 अभियुक्तों को कुल 7230 रुपए सहित गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिंह द्वारा जुआ/ सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना लवेदी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 08 अभियुक्तों को कुल 7230 रुपए सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.05.2021 की रात्रि को थाना लवेदी पुलिस द्वारा कोरोना वायरस से बचाव एवं लॉकडाउन के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर गस्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग की जा रही थी । चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा पुलिस टीम को कुछ लोगों द्वारा जुआ खेलने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान ग्राम लवेदी में आम के पेड़ के पास, पहुँचकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए दबिश देकर 08 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया ।

उक्त गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के कब्जे से नगद रूपये व ताश की गड्डी बरामद कर मु0अ0सं0 52/21 धारा 13 जी एक्ट,अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विकास पुत्र सालिग्राम निवासी ग्राम लवेदी थाना लवेदी जनपद इटावा ।
2. कैलाश दौहरे पुत्र माधवराम निवासी उपरोक्त ।
3. बबलू पुत्र आत्माराम निवासी उपरोक्त ।
4. शीलू पुत्र अमर सिंह निवासी नगला पति थाना लवेदी जनपद इटावा ।
5. गौतम पुत्र स्व0 रामस्नेही निवासी ग्राम लवेदी थाना लवेदी जनपद इटावा।
6. शिवसिंह पुत्र बंशी निवासी कोट थाना नयागांव जनपद भिण्ड मध्य प्रदेश
7. अभिषेक पुत्र प्रेमचंद निवासी ग्राम लवेदी थाना लवेदी जनपद इटावा
8. बन्टू उर्फ विमल पुत्र अमर सिंह निवासी उपरोक्त

बरामदगी-

1. 7230 रुपए
2. 52 ताश पत्ता

पुलिस टीम- श्री सुरेशचन्द्र थानाध्यक्ष लवेदी, उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार, हे0का0 महेन्द्र पाल सिंह , का0 महेन्द्र सिंह, का0 रंजीत कुमार, का0 चिराग शर्मा का0 सुनील कुमार, हे0का0 चालक शिवनंदन सिंह

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा।